

SSC GD Constable (18- February-2019) Shift 2 (Hindi)



1. रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें।

उसने _____ से पत्र लिखा।

- A. मोबाइल
- B. किताब
- C. कलम
- D. कागज

Ans. C

2. रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें।

मुझे विश्वास है कि अच्छे _____ जरूर आएँगे।

- A. रात
- B. दोपहर
- C. दिन
- D. सुबह

Ans. C

3. रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें।

दर्जी कपड़े _____ है।

- A. धोता
- B. सिलता
- C. धुनता
- D. बुनता

Ans. B

4. दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है।

प्रकृति केवल निर्माण ही नहीं, ध्वंस भी करता है।

- A. प्रकृति केवल
- B. करता है।

C. निर्माण ही नहीं,

D. ध्वंस भी

Ans. B

5. दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें।

जिस दिन मैं उस संत से मिली, उनके वाणी से मैं प्रभावित हो गई।

- A. उनका वाणी से
- B. उनकी वाणी से
- C. उनमें वाणी से
- D. उनसे वाणी से

Ans. B

6. दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है।

निश्चल और सरल बचपन की खुशियाँ चेहरे पर तैर रहा हैं।

- A. चेहरे पर
- B. तैर रहा हैं।
- C. बचपन की खुशियाँ
- D. निश्चल और सरल

Ans. B

7. दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें।

जब वह मुझसे मिलती थी तब मेरे चरणों छूने का प्रयास करती थी।

- A. चरण छूने का
- B. चरणों छूना का
- C. चरण छूना के
- D. चरणों छूने का

Ans. A

8. दिये गये वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिये।

जिसमें जानने की इच्छा हो

- A. जिज्ञासु
- B. पिपासु
- C. लोलुप
- D. जानकारी

Ans. A

9. दिये गये वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिये।

जिसका कोई शत्रु न हो

- A. अजातशत्रु
- B. बंधु
- C. सहचर
- D. मित्र

Ans. A

10. दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है।

उद्योग-धंधों के विस्तार से वृक्षों की संख्या से निरंतर गिरावट आ रही है।

- A. उद्योग-धंधों के
- B. निरंतर गिरावट आ रही है।
- C. विस्तार से
- D. वृक्षों की संख्या से

Ans. D

11. सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें।

- A. घुड़दौड़
- B. धूड़दौड़
- C. घुड़दोड़
- D. घोड़दौड़

Ans. A

निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए-

अपना स्वभाव छोड़ना किसी के _____(1) में नहीं है। दुष्ट एवं स्वाध्ाी को पहचान कर वैसे ही चलना चाहिए जैसे कीचड़ भरे मार्ग में हम बचते हुए चलते हैं। दुष्ट व्यक्ति कुछ पल के लिए अपना _____(2) बदल सकता है परंतु _____(3) मिलते ही वह अपनी दुष्टता पर उतारु हो जाएगा। करेला मीठा नहीं हो सकता एवं साँप विष की जगह _____(4) नहीं उगल सकता। पाँचों _____(5) बराबर नहीं होती।

12. गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान (1) के लिए उपयुक्त शब्द होगा-

- A. पैर
- B. आँख
- C. दिमाग
- D. हाथ

Ans. D

13. गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान (2) के लिए उपयुक्त शब्द होगा-

- A. नाचना
- B. व्यवहार
- C. घूमना
- D. सोना

Ans. B

14. गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान (3) के लिए उपयुक्त शब्द होगा-

- A. नौकरी
- B. बाजार
- C. घर
- D. अवसर

Ans. D

15. गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान (4) के लिए उपयुक्त शब्द होगा-

- A. अमृत
- B. कीचड़
- C. पानी
- D. दूध

Ans. A

16. गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान (5) के लिए उपयुक्त शब्द होगा-

- A. कान
- B. आँख
- C. उँगलियाँ
- D. नाक

Ans. C

17. दिए गए शब्द का विलोम चुनें।

उत्तम

- A. अधर
- B. अति
- C. बढ़िया
- D. अधम

Ans. D

18. दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें।

रात्रि

- A. गजनी
- B. हिमानी
- C. ज्ञानी
- D. रजनी

Ans. D

19. निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो 'गड़े मुर्दे उखाड़ना' मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है।

- A. नई कहानियाँ बनाना
- B. गड़े हुए मुर्दों को कहीं और ले जाना
- C. मुर्दों को कब्र से उठाना
- D. पुरानी बातें उठाना

Ans. D

20. दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें।

सरस्वती

- A. नेत्री
- B. माता
- C. शारदा
- D. देवी

Ans. C

21. निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो 'तेल निकालना' मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है।

- A. कम काम करना
- B. तेल के कुँ से तेल बाहर निकालना
- C. बहुत अधिक काम करा लेना
- D. कम काम लेना

Ans. C

22. रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें।

आभूषण मनुष्य की _____ बढ़ाते हैं।

- A. प्रेम
- B. शक्ति
- C. शोभा
- D. तेज

Ans. C

23. दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें।

हमें जो भी कार्य करें वह सावधानी पूर्वकता होना चाहिए।

- A. सावधानतापूर्वक होना चाहिए।
- B. सावधानीपूर्वक होना चाहिए।
- C. सावधानी पूर्व होना चाहिए।
- D. सावधानपूर्वक होना चाहिए।

Ans. B

24. दिए गए शब्द का विलोम चुनें।
प्रवेश

- A. दूर
- B. पास
- C. आना
- D. निकास

Ans. D

25. सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें।

- A. उपर्युक्त
- B. उपरीयुक्त
- C. उपरियुत
- D. उपर्युक्त

Ans. D



Gradeup SSC & Railways Super Superscription

Features:

1. 18+ Structured Courses for SSC & Railways Exams
2. 550+ Mock Test for SSC & Railways Exams
3. Separate Batches in Hindi & English
4. Mock Test are available in Hindi and English
5. Available on Mobile and Desktop

Gradeup Super Subscription, Enroll Now